



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 02.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना निघासन पुलिस द्वारा 200 अदद अवैध टैबलेट (अल्प्रासेफ) बरामद कर अभियुक्त विनोद भार्गव को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.09.21 को थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त विनोद भार्गव पुत्र स्व0 बहोरीलाल निवासी ग्राम चखरा कोतवाली निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 200 अदद अवैध नशीली टैबलेट अल्प्रासेफ बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना निघासन पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 अजीत कुमार सिंह
2. का0 राहुल कुमार
3. का0 छत्रपाल

थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त राजन उर्फ साजन पुत्र रविन्द्र को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त राजन उर्फ साजन पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम कैमहरा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 225/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. जावेद पुत्र कमाल निवासी ग्राम देवरिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी व 02 ईरसाद पुत्र लियाकत निवासी ग्राम मिलपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्त ईरसाद उपरोक्त के कब्जे 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 362/2021 व मु0अ0सं0 364/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. रामनरेश पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मलिगवा थाना नीमगांव जनपद खीरी व 02. रतिकूउद्दीन पुत्र सफ़िउद्दीन निवासी ग्राम भुलनपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 - 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 249/2021 व मु0अ0सं0 250/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 90 लीटर अवैध शराब सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 05 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **05 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना गोला	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	थाना नीमगांव	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	थाना धौरहरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	90 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार